



प्रेस नोट

## 50,000 रुपये का इनामी माओवादी गिरफ्तार

दिनांक : 17 जुलाई, 2019

हाल में यू.पी.एटीएस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त मनीष श्रीवास्तव ने पूछताछ में बताया कि उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा 50,000/- रुपये का इनामी अभियुक्त खीम सिंह बोरा पुत्र पूरन सिंह, निवासी – अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड अपने साथियों से मिलने धनबाद जाने वाला है। इस सूचना पर एटीएस टीमों को सक्रिय कर आज दिनांक 17.7.19 को बरेली रेलवे स्टेशन के बाहर से अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त

अभियुक्त : खीम सिंह बोरा उर्फ कृष्णा उर्फ प्रकाश उर्फ राजन उर्फ प्रभाकर उर्फ विजयप्रहसू

पिता : पूरन सिंह (किसान)

पता : मकान नं.-146ए कस्बा सोमेश्वर, (पलयूरा ग्राम सभा का मठ, हत्यूड़ा, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड)

### बरामदगी

1. .315 बोर का CMP मय 5 जिन्दा कारतूस
2. साहित्य (जिसका कानूनी परीक्षण किया जा रहा है )
3. पेनड्राइव
4. जंगल सर्वाइवल किट (छोटा फोल्डिंग चाकू, तार कटर, सूजा, ओडोमॉस, लाइट, हाथ का पंखा, छाता व दैनिक प्रयोग का सामान)

### विवरण

- शैक्षिक योग्यता : हाईस्कूल, जी0आई0सी0 सोमेश्वर 1981, इण्टरमीडिएट : जी0आई0सी0 सोमेश्वर 1983, स्नातक : एसकैम्पस .जे.एस., अल्मोड़ा।
- 1983 में बीएससी प्रथम वर्ष में प्रथम लिया किन्तु आन्दोलन से जुड़ने के कारण बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। फिर 1984 में बी0ए0 प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया जिसे उत्तीर्ण कर लीसा आन्दोलन में जुड़ने के कारण पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी।
- वर्ष 2003 में माओवादी सेंट्रल कमेटी ऑफ इण्डिया (MCCI) से जुड़ा।
- जुलाई 2004 में MCCI-PLGA ट्रेनिंग कैम्प, हस्तपुर खत्ता नैनीताल के जंगलों में आयोजित किया, जिसमें मध्यप्रदेश से देशी हथियार बनाने के लिए 02 विशेषज्ञ बुलवाए जिन्होंने 06-शस्त्र ट्रेनिंग कैम्प में ही बनाकर दिये, पश्चिमी चम्पारण बिहार से ट्रेनिंग देने के लिए 02-विशेष तौर पर आए। यह कैम्प 15-दिवस तक आयोजित किया गया।
- वर्ष 2012 व 2016 में उत्तराखण्ड विधानसभा व वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करते हुए अल्मोड़ा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर वॉल राइटिंग व पोस्टर चिपकाने का कार्य बड़े पैमाने पर किया गया।

- फरवरी 2016 में जनपद नैनीताल में उपजिलाधिकारी के सरकारी वाहन को जलाने का प्रयास किया और थाना क्षेत्र सोमेश्वर की स्थानीय विधायक के घर के बाहर दहशत फैलाने के उद्देश्य से पटाखों से धमाके किए।
- वर्ष 2017 में उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा इसके ऊपर रुपए-50,000/- का इनाम घोषित किया गया।
- माह अप्रैल मई/2017 में अल्मोड़ा, नैनीताल तथा बागेश्वर इलाके में शराबबन्दी, रोजगार और पलायन के विषयों पर वॉल राइटिंग और पोस्टर चिपकाने का कार्य किया।
- वर्तमान में उत्तराखण्ड में माओवादियों का संगठन कमजोर होने के नाते यह यहां से भागकर CPI(M) की केन्द्रीय समिति में शामिल होने का प्रयास कर रहा था।

### संगठन

- वर्ष 1983 से वर्ष 2003 तक विभिन्न किसान एवं छात्र जनआन्दोलनों का सक्रिय सदस्य रहा-।
- CPI (Maoist) की 3 USAC (UTTAR BIHAR-UTTAR PRADESH-UTTARAKHAND SPECIAL AREA COMMITTEE) सदस्य रहा।
- यह CPI (Maoist) की 3 USAC की 2006 में जोनल कमेटी के गठन के समय से ही सचिव है, जिसका मुख्य कार्य CPI(Maoist) की विचारधारा को विशेषकर किसान, छात्र, मजदूर व युवाओं के बीच प्रचारप्रसार - करना एवं पार्टी के लिए माओवादियों की भर्ती करना।

### आपराधिक इतिहास

- मु.अ.सं.-709/04, U/S 121a, 124a, 120b, IPC थाना- नानकमत्ता, ऊधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड
- मु.अ.सं.-3222/07, U/S 121/121A/124A/153E/120B IPC & 10/20 UAPA , थाना- नानकमत्ता, ऊधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड
- मु.अ.सं.-05/17, U/S- 436 IPC, 10/20 UAPA, 127 Public Representative Act 1950 & U/S- 3(1) Uttarakhand Property Defacement Act थाना-भुवाली, जनपद-नैनीताल, उत्तराखण्ड
- मु.अ.सं.-05/17u/s- 10/20 UAPA,U/S- 153A, 153B, 124A, IPC, U/S- 127 Public Representative Act 1950 & U/S- 3(1) Uttarakhand Property Defacement Act थाना-जनपद : अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड

### पूछताछ के बिन्दु

- इसके माओवादी विचारधारा से प्रेरित सहयोगियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
- उत्तर प्रदेश में माओवादी संगठन एवं इसके आनुषांगिक संगठनों की गतिविधियों एवं सदस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करना।

## अग्रिम कार्यवाही

- अभियुक्त उपरोक्त को बरेली से गिरफ्तारी के उपरान्त लखनऊ लाया जा रहा है।
- गिरफ्तार अभियुक्त खीम सिंह को कल दिनांक 18.7.19 को माननीय न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत कर पुलिस कस्टडी रिमांड लिया जाएगा।

## गिरफ्तार करने वाली टीम

निरीक्षक मनजीत सिंह, निरीक्षक सुशान्त गौर, निरीक्षक संतोष कुमार तिवारी, मुख्य आरक्षी ओमवीर सिंह, मुख्य आरक्षी इरशाद उल्ला खां आरक्षी अमर शर्मा, आरक्षी मनोज कुमार, आरक्षी रविकांत, आरक्षी इक़वाल हैदर, आरक्षी मनोज यादव, आरक्षी विनय कुमार, आरक्षी शकील अहमद, आरक्षी मोहम्मद रफी, आरक्षी सुनीत कुमार, आरक्षी सुशील कुमार

~असीम अरुण

ADG UP ATS.

